

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 1982/पौष 2, 1904

No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 23, 1982/PAUSA 2, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1982

आ० अ० 102(अ) :—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम
11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण
की सूचना के लिए किया जाता है :—

प्ररूप 7क

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का सूची

[नियम 10(1) देखिए]

19 -- नेल्लोर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4
1.	नानादासु मंगलगिरि	9/820, रेलवे फीडर्स रोड, नेल्लोर।	नराजू
2	पुचलापल्ली पंचलाइयाह	अशोक नगर, पोस्टी श्रीरामुलु पार्क के निकट, गुडूर जिला नेल्लोर।	माइकिल
3	मेरिगां रामकृष्णइयाह	हरिजनापालेम, रापुर, जिला नेल्लोर।	हाथ

स्थान : नेल्लोर

हस्ता०

तारीख : 15-12-1982

क० मुजाधाराव

रिटनिंग ऑफिसर

19-नेल्लोर (अ०जा०) संसदीय
निर्वाचन-क्षेत्र

[स० 100/आ० प्र०-ला० म०/1/82]

आदेश स,

बी० के० राव, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1982

O.N. 102(B) — In pursuance of sub-rule (2) of Rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information

Form—7A

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See rule 10(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]

BYE-ELECTION TO THE HOUSE OF THE PEOPLE FROM
19-NELLORE (SC) PARLIAMENTARY CONSTITUENCY

S.No.	Name of the Candidate	Address of the Candidate	Symbol Allotted
1	2	3	4
1.	NANADASU MANGALAGIRI	9/820, Railway Feeders Road, Nellore	Scales
2.	PUNJIB APALI I PENCHAI AIAH	Ashok Nagar Near Potti Sirceramulu Park, Gudur, Nellore District.	Bicycle
3.	MERIGA RAMAKRISHNAIAH	Harijanapalem, Rapur, Nellore District.	Hand

Sd/-

Place : Nellore

Date : 15-12-82

(K. SUJATHARAO)

RETURNING OFFICER

19-NELLORE (SC) PARLIAMENTARY

CONSTITUENCY

[No 100/AP-HP/1/82]

By Order,

V. K. RAO, Under Secy.

Election Commission of India

